

वेलेन्ये पर समाचार लेख

वेलेन्ये एक नया, आधुनिक यूरोपियन शहर है जिसकी संरचना आधुनिक है और यह बहु-संस्कृतीय खुलापन लिये है। इसका पहला उल्लेख 13वीं शताब्दी में मिलता है जब इसे बाज़ार या मंडी के शहर के रूप में बताया गया है, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही यह वास्तव में विकसित होने लगा था; 20 सितंबर 1959 को इसके नवनिर्मित सिटी सेंटर का विधिवत उद्घाटन हुआ था। आज वेलेन्ये की अपनी नगर पालिका है, जिसमें 25 वार्ड हैं जहाँ लगभग 33,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 25,000 तो मुख्य शहर में ही रहते हैं। यह स्लोवेनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों में से एक है और साथ ही सावीन्या-सैलेक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रोजगार-संबंधी, प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्र भी है। वेलेन्ये के आर्थिक विकास के आधार-स्तंभों में कोयला खनन, ऊर्जा सेक्टर, धातुओं का काम और विशेषीकृत सेवाएँ शामिल हैं; जिनमें हाल ही में पर्यटन भी जुड़ गया है। वेलेन्ये की शानदार रखरखाव वाली आधारभूत संरचना और मेहमाननवाज़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। शहर का और साथ ही आस-पास का प्राकृतिक सौंदर्य (टीटो स्केयर की समुद्र सतह से ऊँचाई - 390 मीटर) आसानी से देखा जा सकता है और शहर के बगीचे, जंगल, झीलों के किनारे और हाईकिंग, साइकलिंग और पर्वतारोहण के रास्तों के माध्यम से वहाँ आसानी से पहुँचा भी जा सकता है। खेलों की आधुनिक सुविधाएँ, सांस्कृतिक संस्थाएँ, म्यूज़ियम, शैक्षणिक संस्थाएँ और अनेक दूसरी संस्थाएँ, क्लब और स्थानीय कलाकार इस शहर की जान हैं। वेलेन्ये अपने खेलों, मनोरंजन, पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मशहूर है। यह शहर है संगीत, नृत्य, काव्य और नए-नए विचारों का। वेलेन्ये का इतिहास कई जाने-पहचाने नामों से लिखा जाएगा : प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, कलाकार, एथलीट, राजनेता आदि वेलेन्ये के रहने वाले हैं। वेलेन्ये शहर में ऐसे सांस्कृतिक स्मारक हैं जिनकी पहचान उनका प्राकृतिक परिवेश भी है, और ऐसे खास कार्यक्रम और लोग भी जो आपको निमंत्रण दे रहे हैं और बेसब्री से आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। *पुराने और नए दोस्तों का वेलेन्ये में स्वागत है!*